



सत्यमेव जयते

केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)

O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,

केंद्रीय कर भवन,
7th Floor, GST Building,
Near Polytechnic,
Ambavadi, Ahmedabad-380015



☎ : 079-26305065

टैलेफैक्स : 079 - 26305136

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

क फाइल संख्या : File No : V2(ST)/71/Ahd-I/2017-18
Stay Appl.No. NA/2017-18

1539 40
1543

ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. AHM-EXCUS-001-APP-341-2017-18
दिनांक Date : 22-02-2018 जारी करने की तारीख Date of Issue

17/3/2018

श्री उमा शंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by Shri. Uma Shanker, Commissioner (Appeals)

ग Arising out of Order-in-Original No. STC/06/KM/AC/D-III/17-18 दिनांक: 28/4/2017 issued by
Assistant Commissioner, Central Tax, Ahmedabad-South

घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address of the Appellant / Respondent
M/s Maxean Management Services
Ahmedabad

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को
अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as
the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक
के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
: 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit
Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New
Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first
proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे
भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के
दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to
another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a
warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of
on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country
or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

... 2 ...



(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित हैं।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हॉस्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016

(a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."




ORDER IN APPEAL

This is an appeal filed by M/s Maxean Management Services, A-903, Narnarayan Complex, Near Pizza Hut, Swastik Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad-38009 (herein after referred to as the appellants) against the OIO No. STC/06/KM/AC/D-III/17-18 dtd. 28.04.2017 (herein after referred to as the impugned order) passed by the Asstt. Commissioner, Division-III, Service Tax, Ahmedabad (herein after referred to as the adjudicating authority).

2. The brief facts of the case are that the appellants are a proprietorship firm engaged in providing taxable but it was found that they had not paid the service tax from April, 2012 to December, 2012 amounting to Rs. 13,03,412/-. It was also noticed that the appellants had not filed ST-3 returns also for the period from October-2011 to September-2012 within stipulated time limit. It was intimated by the appellants that they had paid the service tax of Rs. 12,78,916/- with interest and penalty under Section 73 (4A). Statements were also recorded in which the appellants submitted that they had paid the service tax liabilities till the March, 2014 and the returns have been filed. It was also submitted that they had paid the differential service tax of Rs. 2,38,001/- along with interest of Rs. 1,03,332/- and penalty Rs. 71,758/- totaling Rs. 4,13,091/- on consideration and advances received by them as income. It was also notice that the appellants had adjusted the excess paid amount of Rs. 49,033/- against the short paid service tax for the period 2011-12. The said adjustment was hit by limitation and therefore cannot adjust their excess payment of service tax made during the year 2009-10 & 2010-11 against the service tax liability for the year 2011-12. Upon reconciliation of the figures of taxable income reflected in the books of accounts, it was noticed that the service tax liability of the said appellants was Rs. 17,16,980/- for the period 2011-12 and 2012-13. A show cause notice dtd. 15.03.2016 was served upon the appellants. The adjudicating authority, after having considered their defence arguments and case records, confirmed the demand of service tax of Rs. 17,16,980/- and ordered appropriation of already paid Rs. 16,67,947/- along with interest and also imposed penalty of Rs. 10,000/- under Section 77 and of equal amount under Section 78 of the Act.

3. Being aggrieved by the impugned order, the appellants have filed this appeal on the following grounds:

- a) That denying the benefit of reduced penalty under erstwhile Section 73 (4A) on the ground that conditions of the Section are not satisfied, is wrong;



- b) That the confirmation of demand and imposing penalty based on the show cause notice which cannot be issued under erstwhile Section 73 (4A);
- c) That imposing penalty of Rs. 10,000/- under Section 77 despite the fact that the payment of late fee has already been made is wrong;
- d) That they have not been allowed adjust of excess serve tax arrived against shortage of tax arrived by preparing reconciliation between financial records and ST-3 returns despite the clear provision of Rule 6 of the Service Tax Rules, 1994;
- e) That imposing penalty under Section 78 and not giving option to pay 25% penalty as provided under the Second Proviso to Section 78 as amended is wrong;
- f) That during the search dated 29.01.2013, search proceeding was also initiated on their group company M/s V Honey Marketing Management Services Pvt. Ltd. And they had paid the service tax along with interest and penalty under Section 73 (4A) and the entire demand was dropped by the Additional Commissioner vide OIO dtd. 20.02.2017;
- g) That they had adjusted excess paid service tax amount in the short paid service tax for the year 2011-12 and this issue has been settled in their favour vide the case of M/s Dell India Pvt. Ltd. Vs. CST, Bangalore – 2016 (42) STR-273 (Tri.Bang).

4. The personal hearing in the case was held on 22.01.2018 in which Shri Punit Prajapati, Chartered Accountant appeared on behalf of the appellants. He reiterated the grounds of appeal and submitted that they had paid duty with interest and penalty as per Section 73 (4) A. It was omitted in 2016. Information was given in 2013. A letter conveying dropping of proceedings was also submitted.

5. I have carefully perused the documents pertaining to the case and submitted by the appellants along with the appeals. I have considered the arguments made by the appellants in their appeal memorandum as well as oral submissions during personal hearing.

6. I find that the issue to be decided in the instant case is whether the excess paid service tax can be adjusted by the appellants suo moto or not?.


7. I find that the demand of the service tax amounting to Rs. 17,61,980 had been raised for the period 2012-13 (upto December-2012). I also find that the appellants have paid Rs. 16,67,947/- along with interest, late fee and penalty as detailed in the para 17 of the impugned order. It is also a fact that the appellants had suo moto adjusted an amount of Rs. 49,033/- towards the short payment of service tax. They have claimed that they had paid this amount excess in the years 2011-12. The adjudicating authority



Apart from the above, all other remaining issues alleged in the show cause notice and accepted by the appellants during various phases of the investigation and adjudication process stand confirmed.

10. The appeal is disposed off accordingly.

अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गयी अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है !



(उमा शंकर)

केंद्रीय कर आयुक्त (अपील्स)

अहमदाबाद

दिनांक: 22/2/2018

सत्यापित


(धर्मेंद्र उपाध्याय)

अधीक्षक (अपील्स),

केंद्रीय कर, अहमदाबाद

By R.P.A.D.

To:

M/s Maxean Management Services,
A-903, Narnarayan Complex,
Near Pizza Hut,
Swastik Cross Road,
Navrangpura,
Ahmedabad-38009

Copy to:-

- (1) The Chief Commissioner, CGST, Ahmedabad Zone,
- (2) The Commissioner, CGST, Ahmedabad (South),
- (3) The Dy./Astt. Commissioner, CGST, Div.-VI, Ahmedabad (South),
- (4) The Dy./Astt. Commissioner (Systems), CGST, Ahmedabad (South),
- (5) Guard File,
- (6) P.A. File.

